

(iii) Difference between perfect competition and monopolistic competition ?

- (1) Perfect competition has a large number of small firms while monopolistic competition does not.
- (2) In perfect competition, firms produce identical goods, while in monopolistic competition, firms produce different goods.
- (3) Perfect competition has no barriers to entry, while monopolistic competition does.
- (4) Perfect competition has barriers to entry while monopolistic competition does not.

No. of Printed Pages : 20

Roll No.

32017

B. A. & Hons. (Subsidiary)

EXAMINATION, 2025

(Re-appear Only)

(Second Semester)

ECONOMICS

Paper I

Micro-Economics

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 80

Note : Attempt *Five* questions in all. Q. Nos. **1** and **2** are compulsory. Attempt remaining *three* questions selecting *one* question from any three Units out of the four Units. All questions carry equal marks.

कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रश्न क्र. 1 और 2 अनिवार्य हैं । शेष तीन प्रश्नों के उत्तर चार इकाइयों से किन्हीं तीन इकाइयों से एक प्रश्न चुनते हुए कीजिए । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

1. (a) Product Differentiation

उत्पाद विभेदीकरण

(b) Cartel

कार्टेल

(c) Dumping

राशिपातन

(d) Gross Interest.

सकल ब्याज

2. (A) Attempt the following multiple choice questions :

निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(i) The causes of emergence of monopoly is/are :

- (1) Concentration of ownership of raw material
- (2) Legal protection
- (3) State regulation
- (4) All of the above

एकाधिकार के उद्भव के/का कारण हैं/है :

- (1) कच्चे माल के स्वामित्व का संकेन्द्रण
- (2) कानूनी सुरक्षा
- (3) राज्य विनियमन
- (4) उपर्युक्त सभी

(ii) Which of the following market types has only a few competing firms ?

- (1) Perfect competition
- (2) Monopolistic competition
- (3) Monopoly
- (4) Oligopoly

निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में केवल कुछ प्रतिस्पर्धी फर्म होती हैं ?

- (1) पूर्ण प्रतियोगिता
- (2) एकाधिकार प्रतियोगिता
- (3) एकाधिकार
- (4) अल्पाधिकार

निम्नलिखित का मिलान कीजिए :

सूची I

- (i) राशिपातन
- (ii) विकुंचित आय वक्र
- (iii) क्षैतिज सीधी रेखा आय वक्र
- (iv) विभिन्न उत्पादों वाले खरीदारों और विक्रेताओं की बड़ी संख्या

सूची II

- (1) एकाधिकारी प्रतिस्पर्धी फर्म
- (2) अल्पाधिकार फर्म
- (3) पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म
- (4) भेदभावपूर्ण एकाधिकार

कूट :

- (1) (i)-2, (ii)-3, (iii)-1, (iv)-4
- (2) (i)-3, (ii)-2, (iii)-4, (iv)-1
- (3) (i)-4, (ii)-2, (iii)-3, (iv)-1
- (4) (i)-3, (ii)-1, (iii)-4, (iv)-2

पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के बीच अंतर :

- (1) पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में छोटी फर्में होती हैं जबकि एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में नहीं होती ।
- (2) पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म समान वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, जबकि एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में फर्म अलग-अलग वस्तुओं का उत्पादन करती हैं ।
- (3) पूर्ण प्रतिस्पर्धा में प्रवेश के लिए कोई बाधा नहीं होती, जबकि एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में बाधा होती है ।
- (4) पूर्ण प्रतिस्पर्धा में प्रवेश में बाधाएँ होती हैं जबकि एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में बाधाएँ नहीं होती हैं ।

(iv) Ricardo's theory of rent was formulated on the basis of.....

- (1) the law of diminishing returns
- (2) the law of increasing returns
- (3) the law of constant returns.
- (4) the law of diminishing marginal utility

रिकाडों के लगान के सिद्धांत को.....के आधार पर बनाया गया था।

- (1) घटते प्रतिफल का नियम
- (2) बढ़ते प्रतिफल का नियम
- (3) समान प्रतिफल का नियम ।
- (4) हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम

(v) According to Keynes interest is a payment for :

- (1) Consumer's preference
- (2) Producer's preference
- (3) Liquidity preference
- (4) State Bank's preference

कीन्स के अनुसार ब्याज निम्न के लिए भुगतान है :

- (1) उपभोक्ता प्राथमिकता
- (2) उत्पादक प्राथमिकता
- (3) तरलता प्राथमिकता
- (4) स्टेट बैंक प्राथमिकता

(B) Attempt the following matching type questions :

निम्नलिखित मिलान संबंधी प्रश्नों को हल कीजिए :

(i) Match the following :

List I

- (i) Dumping
- (ii) Kinked revenue curve
- (iii) Horizontal straight line revenue curve
- (iv) Large number of buyers and sellers with differentiated products

List II

- (1) Monopolistic competitive firm
- (2) Oligopoly firm
- (3) Perfectively competitive firm
- (4) Discriminatory monopoly

Code :

- (1) (i)-2, (ii)-3, (iii)-1, (iv)-4
- (2) (i)-3, (ii)-2, (iii)-4, (iv)-1
- (3) (i)-4, (ii)-2, (iii)-3, (iv)-1
- (4) (i)-3, (ii)-1, (iii)-4, (iv)-2

सूची-I की मद को सूची-II की मद से मिलाइए और उत्तर के लिए सही कूट चुनिए :

सूची I

- (i) शुद्ध ब्याज
- (ii) आभास लगान
- (iii) सकल ब्याज
- (iv) आर्थिक लगान

सूची II

- (1) व्यापक अवधारणा
- (2) संकीर्ण अवधारणा
- (3) सीमांत उत्पाद और अवसर लागत के बीच अंतर
- (4) अल्फ्रेड मार्शल

कूट :

- (1) (i)-2, (ii)-4, (iii)-1, (iv)-3
- (2) (i)-3, (ii)-2, (iii)-4, (iv)-1
- (3) (i)-1, (ii)-2, (iii)-4, (iv)-3
- (4) (i)-3, (ii)-1, (iii)-4, (iv)-2

(ii) Match the following :

List I

- (i) Monopoly
- (ii) Monopolistic competition
- (iii) Oligopoly

List II

- (1) Large number sellers and large number of buyers
- (2) Single seller and large number of buyers
- (3) Few and big sellers and large number of buyers

Code :

- (1) (i)-2, (ii)-1, (iii)-3
- (2) (i)-3, (ii)-2, (iii)-1
- (3) (i)-1, (ii)-2, (iii)-3

निम्नलिखित का मिलान कीजिए :

सूची I

- (i) एकाधिकार
- (ii) एकाधिकारी प्रतियोगिता
- (iii) अल्पाधिकार

सूची II

- (1) बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता
- (2) एक विक्रेता और अनेक क्रेता
- (3) कुछ और बड़े विक्रेता और अनेक क्रेता

कूट :

- (1) (i)-2, (ii)-1, (iii)-3
- (2) (i)-3, (ii)-2, (iii)-1
- (3) (i)-1, (ii)-2, (iii)-3

- (iii) Match the items in List 1 with those in List-II and select the correct code for the answer :

List I

- (i) Net interest
- (ii) Quasi rent
- (iii) Gross interest
- (iv) Economic rent

List II

- (1) Wider concept
- (2) Narrower concept
- (3) Difference between the marginal product and opportunity cost
- (4) Alfred Marshall

Code :

- (1) (i)-2, (ii)-4, (iii)-1, (iv)-3
- (2) (i)-3, (ii)-2, (iii)-4, (iv)-1
- (3) (i)-1, (ii)-2, (iii)-4, (iv)-3
- (4) (i)-3, (ii)-1, (iii)-4, (iv)-2

सूची-I की मद को सूची-II की मद से मिलाइए और उत्तर के लिए सही कूट चुनिए :

सूची I

- (i) एकाधिकार
- (ii) एकाधिकार प्रतियोगिता
- (iii) पूर्ण प्रतियोगिता
- (iv) अल्पाधिकार

सूची II

- (1) कीमत स्वीकारक
- (2) मूल्य निर्माता
- (3) विषम उत्पाद
- (4) मूल्य कठोरता

कूट :

- (1) (i)-2, (ii)-3, (iii)-1, (iv)-4
- (2) (i)-3, (ii)-2, (iii)-4, (iv)-1
- (3) (i)-1, (ii)-2, (iii)-4, (iv)-3
- (4) (i)-3, (ii)-1, (iii)-4, (iv)-2

- (iv) Match the items in List 1 with those in List-II and select the correct code for the answer :

List I

- (i) Imperfect competition
- (ii) Loanable fund theory of interest
- (iii) Marginal productivity theory of wages
- (iv) Liquidity preference theory of interest

List II

- (1) Robinson
- (2) Wicksell
- (3) Clark
- (4) Keynes

Code :

- (1) (i)-1, (ii)-2, (iii)-3, (iv)-4
- (2) (i)-3, (ii)-2, (iii)-4, (iv)-1
- (3) (i)-1, (ii)-2, (iii)-4, (iv)-3
- (4) (i)-3, (ii)-1, (iii)-4, (iv)-2

सूची-I की मद को सूची-II की मद से मिलाइए और उत्तर के लिए सही कूट चुनिए :

सूची I

- (i) अपूर्ण प्रतिस्पर्धा
- (ii) ब्याज का ऋण योग्य कोष सिद्धांत
- (iii) मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत
- (iv) ब्याज का तरलता वरीयता सिद्धांत

सूची II

- (1) रॉबिन्सन
- (2) विकसेल
- (3) क्लार्क
- (4) केन्ज

कूट :

- (1) (i)-1, (ii)-2, (iii)-3, (iv)-4
- (2) (i)-3, (ii)-2, (iii)-4, (iv)-1
- (3) (i)-1, (ii)-2, (iii)-4, (iv)-3
- (4) (i)-3, (ii)-1, (iii)-4, (iv)-2

- (v) Match the items in List 1 with those in List-II and select the correct code for the answer :

List I

- (i) Monopoly
- (ii) Monopolistic competition
- (iii) Perfect competition
- (iv) Oligopoly

List II

- (1) Price taker
- (2) Price maker
- (3) Heterogeneous product
- (4) Price rigidity

Code :

- (1) (i)-2, (ii)-3, (iii)-1, (iv)-4
- (2) (i)-3, (ii)-2, (iii)-4, (iv)-1
- (3) (i)-1, (ii)-2, (iii)-4, (iv)-3
- (4) (i)-3, (ii)-1, (iii)-4, (iv)-2

10. Explain the marginal theory of wages in detail.

मजदूरी के सीमांत सिद्धांत को विस्तार से समझाइए ।



(C) Explain the following very short answer type questions :

निम्नलिखित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या कीजिए :

(i) Quasi rent

आभास लगान

(ii) Selling cost

विक्रय लागत

(iii) Shut down point.

उत्पाद बन्द बिन्दु ।

Unit I

इकाई I

3. What do you understand by market ? Describe the main assumptions of the perfect competition market.

बाजार से आप क्या समझते हैं ? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मुख्य धारणाओं का वर्णन कीजिए ।

4. What do you mean by Perfect Competition ?

Explain the short-run and long-run equilibrium under perfect competition.

पूर्ण प्रतियोगिता से आपका क्या अर्थ है ? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकालीन और दीर्घकालीन संतुलन को समझाइए ।

Unit II

इकाई II

5. What is Monopoly ? Discuss, how is it different from perfect competition ?

एकाधिकार क्या है ? चर्चा कीजिए कि यह पूर्ण प्रतिस्पर्धा से किस प्रकार भिन्न है ?

6. What do you understand by price discrimination ? Discuss the conditions under which the price discrimination is possible and profitable.

कीमत विभेद से आप क्या समझते हैं ? उन परिस्थितियों पर चर्चा कीजिए जिनके तहत मूल्य विभेद संभव और लाभदायक है ।

Unit III

इकाई III

7. What is Oligopoly ? Discuss the features of oligopoly market in detail

अल्पाधिकार क्या है ? अल्पाधिकार बाजार की विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए ।

8. Explain the short-run and long-run equilibrium under monopolistic market.

एकाधिकार बाजार के अंतर्गत अल्पकालीन और दीर्घकालीन संतुलन की व्याख्या कीजिए ।

Unit IV

इकाई IV

9. Critically examine the loanable fund theory of interest.

ब्याज के ऋण योग्य कोष सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।